



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508 ]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, अक्टूबर 14, 1999/आश्विन 22, 1921

No. 508 ]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 1999/ASVINA 22, 1921

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1999

सा.का.नि. 702(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया कि विटामिन बी<sub>1</sub>, विटामिन बी<sub>6</sub>, विटामिन बी<sub>12</sub> के नियत मात्रा संयोजन के उपयोग में ऐसे चिकित्सीय गुण नहीं हैं, जिनके लिए दावा किया गया है या दावा किया जाना तात्पर्यित है ;

और यह कि मानव उपयोग के लिए विटामिन बी<sub>1</sub>, विटामिन बी<sub>6</sub> और विटामिन बी<sub>12</sub> के उक्त संयोजन का विनिर्माण, विक्रय या वितरण का लोकहित में प्रतिषेध करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानव उपयोग के लिए विटामिन बी<sub>1</sub>, विटामिन बी<sub>6</sub> और विटामिन बी<sub>12</sub> के नियत मात्रा संयोजन का विनिर्माण, विक्रय या वितरण का तारीख 1 जनवरी, 2001 से प्रतिषेध करती है।

[ फा. सं. एक्स-11014/6/99-डीएमएस एण्ड (पी.एफ.ए.) ]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : 1-5-1979 तक यथा संशोधित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम संबंधी प्रकाशन में (पी.जी.डी.एच.एस.-61) में निहित है जिन्हे पिछली बार सा.का.नि. 591(अ) दिनांक 17-8-99 के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1999

G.S.R. 702(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the Fixed Dose Combination of Vitamin B<sub>1</sub>, Vitamin B<sub>6</sub>, Vitamin B<sub>12</sub> does not have the therapeutic value claimed or purported to be claimed for it;

And whereas it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale or distribution of the said combination of Vitamin B<sub>1</sub>, Vitamin B<sub>6</sub> and Vitamin B<sub>12</sub> for human use in public interest :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale or distribution of Fixed Dose Combination of Vitamin B<sub>1</sub>, Vitamin B<sub>6</sub> and Vitamin B<sub>12</sub> for human use with effect from 1st January, 2001.

[F.No. X-11014/6/99-DMS & PFA]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

**Foot Note:** —The Drugs and Cosmetics Rules, 1945, as amended upto 1-5-1979 is contained in the publication of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) containing the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Rules (PDGHS-61) last amended vide GSR 591(E) dated 17-8-99.